

# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 169 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2002/माघ 26, 1923

No. 169]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2002/MAGHA 26, 1923

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2002

का. आ. 202(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सेन्ट्रल इंडिया कॉमर्शियल एक्सचेंज लि., ग्वालियर द्वारा मान्यता के लिए किए गए आवेदन पर बायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुड़ में अग्रिम संविदा के बारे में 1 मार्च, 2002 से 28 फरवरी, 2007 (दोनों दिन शामिल) तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा मान्यता इस शर्त के अध्याधीन दी जाती है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी जो बायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएंगे।

[मिसिल सं. 12/6/आईटी/2001]

कल्याण रायपुरिया, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2002

S.O. 202(E).—The Central Government having considered, in consultation with the Forward Markets Commission, the application for grant of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Central India Commercial Exchange Ltd., Gwalior and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest to do so, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a period of five years from 1st March, 2002 to 28th February, 2007 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions, as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/6/TT/2001]

KALYAN RAIPURIA, Economic Adviser

